

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2018/ आश्विन 3, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 618
No. 189]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2018/ ASVINA 3, 1940	[N.C.T.D. No. 618

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस (1)/स्थापना शाखा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 सितम्बर, 2018

संख्या 1/7/2016/एचपी-1/स्थापना./4903 से 4910.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं० यू० 11011/2/74-यूटीएल (i) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (एस) तथा के साथ पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना फा. सं०. 01/07/2016/एच०पी०-1/स्था०/302-309 दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों के सिवाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निदेश देते हैं तथा घोषित करते हैं कि:-

- (क) कि नया मेट्रो स्टेशन अर्थात् इ० एस० आई० हॉस्पिटल का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन राजा गार्डन मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ख) कि नया मेट्रो स्टेशन आई.आई.टी., आर. के. पुरम, मुनिरका, वसंत विहार और शंकर विहार का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन घिटोरनी मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ग) कि नया मेट्रो स्टेशन नेहरू एन्वलेव, ग्रेटर कैलाश, चिराग दिल्ली, पंचशील पार्क और कालिंदी कुंज का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन ओखला विहार मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (घ) कि नया मेट्रो स्टेशन मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया (एम आई ए), घेवरा, टिकरी कलां और टिकरी बॉर्डर का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन नांगलोई मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;

- (ड) कि नया मेट्रो स्टेशन डाबरी मोड, दशरथपुरी, पालम और आई जी आई एयरपोर्ट टर्मिनल -1 का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पुलिस स्टेशन जनकपुरी मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (च) कि नया मेट्रो स्टेशन शालीमार बाग का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन आज़ादपुर मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (छ) कि नया मेट्रो स्टेशन शकूरपुर और पंजाबी बाग (पश्चिम) का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन नेता जी सुभाष प्लेस मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ज) कि नया मेट्रो स्टेशन सरोजिनी नगर का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन आई. एन. ए. मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (झ) कि नया मेट्रो स्टेशन साउथ एक्सटेंशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन नेहरू प्लेस मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ञ) कि कश्मीरी गेट रिसीविंग सब स्टेशन और नई दिल्ली रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ट) कि रिठाला रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन रिठाला मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ठ) कि जहांगीरपुरी रिसीविंग सब स्टेशन और मुकुंदपुर रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन आज़ादपुर मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ड) कि यमुना विहार रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन शास्त्री पार्क मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ढ) कि इंदरप्रस्थ रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन प्रगति मैदान मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ण) कि विनोद नगर रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन यमुना डिपो मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (त) कि द्वारका रिसीविंग सब स्टेशन और पालम रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन जनकपुरी मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (थ) कि सुभाष नगर रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन राजा गार्डन मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (द) कि मुंडका रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन नांगलोई मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (ध) कि छत्तरपुर रिसीविंग सब स्टेशन और आर. के. पुरम. रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन घिटोरनी मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (न) कि सरिता विहार रिसीविंग सब स्टेशन और कालका जी रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन ओखला विहार के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;
- (प) कि एयरपोर्ट रिसीविंग सब स्टेशन और धौला कुआँ रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;

- (फ) कि आई.एन.ए. रिसीविंग सब स्टेशन का क्षेत्र इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पुलिस स्टेशन आई.एन.ए. मैट्रो के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जायेगा;

सभी मैट्रो पुलिस स्टेशनों की सीमाएं/संशोधित सीमाएं/क्षेत्राधिकार में स्थानीय क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जैसाकि निम्नलिखित अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट है, अर्थात् :-

अनुसूची

1. मैट्रो पुलिस स्टेशन आई.जी.आई.ए.

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	नई दिल्ली मैट्रो एक्सप्रेस स्टेशन	एक्सप्रेस मैट्रो स्टेशन नई दिल्ली का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय परिसर भूमिगत क्षेत्र तथा मैट्रो भवन की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र के साथ। डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
2	शिवाजी स्टेडियम मैट्रो स्टेशन	मैट्रो स्टेशन शिवाजी स्टेडियम का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय परिसर भूमिगत क्षेत्र तथा मैट्रो भवन की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र के साथ। डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
3	धौला कुआँ मैट्रो स्टेशन	मैट्रो स्टेशन धौला कुआँ का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन, धौला कुआँ रिसीविंग सब स्टेशन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
4	एयरोसिटी एनएच-8 (महीपाल पुर) मैट्रो स्टेशन	मैट्रो स्टेशन एयरोसिटी एनएच-8 (महीपाल पुर) मैट्रो स्टेशन का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र मैट्रो का रैंप जिसमें सीढ़ियां भी शामिल हैं (पैदल पथ शामिल नहीं हैं) एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
5	आईजीआईए मैट्रो स्टेशन	आईजीआईए मैट्रो स्टेशन का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय परिसर भूमिगत व भू-भाग क्षेत्र तथा मैट्रो भवन की चारदीवारी के भीतरी क्षेत्र के साथ, पार्किंग क्षेत्र संबद्ध भवन एयरपोर्ट रिसीविंग सब स्टेशन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
6	द्वारका सैक्टर-21 मैट्रो स्टेशन	मैट्रो स्टेशन द्वारका सैक्टर-21 मैट्रो स्टेशन का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो भवनों के भू-तल तथा चारदीवारी के भीतर क्षेत्र सहित मैट्रो का कार्यालय परिसर शामिल हैं। दिल्ली मैट्रो रेल निगम की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र दिल्ली मैट्रो रेल निगम की चारदीवारी/बाड़ से घिरे संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो दिल्ली मैट्रो द्वारका (दिल्ली मैट्रो रेल निगम (नीली पट्टी) का समूचा क्षेत्र जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो भवनों की चारदीवारी के भीतर भू-तल पर स्थित क्षेत्र सहित मैट्रो का कार्यालय परिसर शामिल हैं। दिल्ली मैट्रो रेल निगम की चारदीवारी के भीतर दिल्ली मैट्रो रेल निगम के स्वामित्व/अनुरक्षित/अधीन पार्किंग क्षेत्र सहायक/संबद्ध भवन दिल्ली मैट्रो रेल निगम की चारदीवारी/बाड़ से घिरा हुआ अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र इसमें मैट्रो ट्रैक के नीचे का क्षेत्र शामिल नहीं है।
7	मैट्रो डिपो द्वारका सैक्टर-21	डिपो में डीएमआरसी की चारदीवारी तथा बाड़ से घिरा क्षेत्र है, जिसमें चारदीवारी के भीतर मैट्रो पटरी मैट्रो यादें कार्यालय परिसर संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल है।

[illegible]

2. मैट्रो पुलिस स्टेशन राजा गार्डन

[illegible]

		चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति/डीएमआरसी की बाड़ तथा डीएमआरसी के अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र।
9	मैट्रो स्टेशन रमेश नगर	मैट्रो स्टेशन रमेश नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, मैट्रो का कार्यालय परिसर जिसमें मैट्रो भवन की चारदीवारी के भीतर की भूमि क्षेत्र शामिल है। इसमें मैट्रो स्टेशन के नीचे के मैन नजफगढ़ रोड़ शामिल नहीं है। पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति/डीएमआरसी की बाड़ तथा डीएमआरसी के अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र।
10	मैट्रो स्टेशन राजौरी गार्डन	मैट्रो स्टेशन राजौरी गार्डन का समूचा क्षेत्र, (दोनों लाईन) जिसमें राजौरी गार्डन मैट्रो स्टेशन से मायापुरी मैट्रो स्टेशन तक की पटरी (शामिल नहीं) जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, मैट्रो का कार्यालय परिसर जिसमें मैट्रो भवन की चारदीवारी के भीतर की भूमि क्षेत्र शामिल है। इसमें मैट्रो स्टेशन के नीचे का मैन नजफगढ़ रोड़ शामिल नहीं है। चारदीवारी/डीएमआरसी की बाड़ के भीतर का क्षेत्र, व्यवसायिक परिसर सहित मल्टी लेवर पार्किंग, संबद्ध भवन तथा डीएमआरसी का अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र।
11	मैट्रो स्टेशन टगौर गार्डन	मैट्रो स्टेशन टगौर गार्डन का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, मैट्रो का कार्यालय परिसर, जिसमें मैट्रो भवन की चारदीवारी के भीतर की भूमि क्षेत्र शामिल है। इसमें मैट्रो स्टेशन के नीचे के मैन नजफगढ़ रोड़ शामिल नहीं है। पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति/डीएमआरसी की बाड़ तथा डीएमआरसी के अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र।
12	मैट्रो स्टेशन सुभाष नगर	मैट्रो स्टेशन सुभाष नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, सुभाष नगर मैट्रो स्टेशन से तिलक नगर मैट्रो स्टेशन तक की पटरी (शामिल नहीं), सुभाष नगर रिसीविंग सब स्टेशन, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, मैट्रो भवन की चारदीवारी के भीतर पर व्यवसायिक विकास क्षेत्र सहित मैट्रो का कार्यालय परिसर जिसमें मैट्रो स्टेशन के नीचे के मैन नजफगढ़ रोड़ शामिल नहीं है। पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति/डीएमआरसी की बाड़ तथा डीएमआरसी के अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र।
13	मैट्रो स्टेशन सत गुरु राम सिंह मार्ग	मैट्रो स्टेशन सत गुरु राम सिंह मार्ग का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, सत गुरु राम सिंह मार्ग मैट्रो स्टेशन से अशोका पार्क मैन मैट्रो स्टेशन तक की पटरी (शामिल नहीं), स्टेशन भवन के दोनों तरफ प्रवेश/निकास गेट, डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरा भूमि क्षेत्र, इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मैट्रो स्टेशन के नीचे मुख्य रोड़ शामिल नहीं है।
14	मैट्रो स्टेशन इ.एस.आई हॉस्पिटल	मैट्रो स्टेशन इ.एस.आई हॉस्पिटल का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, मैट्रो भवन की चारदीवारी के भीतर भू-भाग सहित मैट्रो का कार्यालय परिसर, डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, डीएमआरसी के स्वामित्व/अनुरक्षित/नियंत्रणाधीन पार्किंग क्षेत्र तथा संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति/डीएमआरसी की बाड़ तथा डीएमआरसी के अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र, जिसमें मैट्रो पटरियों के नीचे का क्षेत्र शामिल नहीं है।

3. मैट्रो पुलिस स्टेशन यमुना डिपो

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मैट्रो स्टेशन यमुना बैंक	मैट्रो स्टेशन यमुना बैंक का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।
2	मैट्रो डिपो यमुना बैंक	मैट्रो डिपो यमुना बैंक का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा भूमि के क्षेत्र सहित मैट्रो का क्षेत्र मैट्रो यार्ड कार्यालय परिसर एवम् अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र सम्मिलित है और यमुना बैंक मैट्रो स्टेशन की ओर से आने वाला ट्रैक भी शामिल है इसमें फुटपाथ सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।
3	मैट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर	मैट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ

[illegible]

4. मेट्रो पुलिस स्टेशन धिदोरनी

क्र. सं.	मेट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मेट्रो स्टेशन हौज खास	मेट्रो स्टेशन हौज खास का समूचा क्षेत्र, (दोनों लाईन) जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म स्टेशन भवन के दोनों छोरों के प्रवेश/प्रस्थान द्वार शामिल हैं दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा भूतल पर आच्छादित क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ सहित इसमें फुटपाथ सर्विस रोड़ मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे बनी मेन रोड़ शामिल नहीं।
2	मेट्रो स्टेशन मालवीय नगर	मेट्रो स्टेशन मालवीय नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर स्टेशन के प्रवेश व बाहर जाने का रास्ता अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है, इसमें फुटपाथ सर्विस रोड़ मेट्रो स्टेशन भवन के नीचे बनी मेन रोड़ शामिल नहीं।
3	मेट्रो स्टेशन साकेत	मेट्रो स्टेशन साकेत का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, अन्दर एवं बाहर जाने के द्वार, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं मेट्रो स्टेशन के ऊपर के पैदल पथ सर्विस रोड़, मेन रोड़ को हटा कर, चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
4	मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार	मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार का समूचा क्षेत्र, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के प्रवेश तथा प्रस्थान द्वारों के आसपास का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरा भूमि क्षेत्र तथा पार्किंग स्थान, इसमें सर्विस रोड़, फुटपाथ, मेन रोड़ शामिल नहीं है।
5	मेट्रो स्टेशन छतरपुर	मेट्रो स्टेशन छतरपुर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, छतरपुर रिसीविंग सब स्टेशन अन्दर एवं बाहर जाने के द्वार, स्टेशन भवन के प्रवेश तथा प्रस्थान द्वारों के आसपास का क्षेत्र, डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरा भूमि क्षेत्र तथा पार्किंग स्थान, इसमें सर्विस रोड़, फुटपाथ, मेन रोड़ शामिल नहीं है।
6	मेट्रो स्टेशन सुल्तान पुर	मेट्रो स्टेशन सुल्तान पुर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, अन्दर एवं बाहर जाने के द्वार, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मेन रोड़ शामिल नहीं है।
7	मेट्रो स्टेशन धिदोरनी	मेट्रो स्टेशन धिदोरनी का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, अन्दर एवं बाहर जाने के द्वार, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मेन रोड़ शामिल नहीं है।
8	मेट्रो स्टेशन अर्जन गढ़	मेट्रो स्टेशन अर्जन गढ़ का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, अन्दर एवं बाहर जाने के द्वार सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मेन रोड़ शामिल नहीं है।
9	मेट्रो डिपो सुल्तान पुर	डिपो जो डीएमआरसी की चारदीवारी तथा बाड़ से घिरा है, जिसमें मेट्रो की पटरी, मेट्रो यार्ड, कार्यालय का परिसर चारदीवारी के भीतर संपत्ति विकास क्षेत्र शामिल है।
10	मेट्रो स्टेशन आई आई टी	मेट्रो स्टेशन आई आई टी का समूचा भूमिगत क्षेत्र पटरियां, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के अन्दर एवं बाहर जाने का द्वार। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूमि क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ तथा पार्किंग स्थान जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मेन रोड़ शामिल है।

11	मैट्रो स्टेशन आर. के. पुरम	मैट्रो स्टेशन आर. के. पुरम का समूचा भूमिगत क्षेत्र पटरी, प्लेटफार्म, आर के पुरम रिसीविंग सब स्टेशन, स्टेशन भवन का सरकुलेटिंग एरिया अन्दर एवं बाहर जाने का द्वार। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूमि क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ तथा पार्किंग स्थान जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मैन रोड़ शामिल है।
12	मैट्रो स्टेशन मुनीरका	मैट्रो स्टेशन मुनीरका का समूचा भूमिगत क्षेत्र, पटरी, प्लेटफार्म, सब स्टेशन, स्टेशन भवन का सरकुलेटिंग एरिया अन्दर एवं बाहर जाने का द्वार। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूमि क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ तथा पार्किंग स्थान जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मैन रोड़ शामिल है।
13	मैट्रो स्टेशन वसंत विहार	मैट्रो स्टेशन वसंत विहार का समूचा भूमिगत क्षेत्र, पटरी, प्लेटफार्म, सब स्टेशन, स्टेशन भवन का सरकुलेटिंग एरिया अन्दर एवं बाहर जाने का द्वार। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूमि क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ तथा पार्किंग स्थान जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मैन रोड़ शामिल है।
14	मैट्रो स्टेशन शंकर विहार	मैट्रो स्टेशन शंकर विहार का समूचा क्षेत्र, पटरी, प्लेटफार्म, सब स्टेशन, स्टेशन भवन का सरकुलेटिंग एरिया अन्दर एवं बाहर जाने का द्वार। डीएमआरसी द्वारा घिरा भूमि क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ तथा पार्किंग स्थान जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मैन रोड़ शामिल है।

5. मैट्रो पुलिस स्टेशन कश्मीरी गेट

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मैट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय	मैट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय का समूचा भूमिगत क्षेत्र, मैट्रो पटरी, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी के बीच, विश्वविद्यालय मैट्रो स्टेशन के अन्त में बुफर जोन की ओर आने वाला, पटरी जिसमें चारदीवारी के भीतर, प्लेटफार्म पटरियां तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र कोनकोर्स अन्दर तथा बाहर जाने की सीढ़ियां, लिफ्ट, कोनकोर्स, प्लेटफार्मों की ओर जाने वाले एस्केलेटर, सीढ़ियां और लिफ्ट शामिल है। मैट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय की चारदीवारी के भीतर पार्किंग क्षेत्र तथा पूर्व व पश्चिम की तरफ मैट्रो के भवन के भीतर भूमि क्षेत्र तथा संबंधित भवन चारदीवारी के भीतर सरकुलेटिंग क्षेत्र, मैट्रो रेल स्टेशन चारदीवारी के साथ चारदीवारी/बाड़ से घिरा, संपत्ति विकास क्षेत्र।
2	मैट्रो स्टेशन विधानसभा	मैट्रो स्टेशन विधानसभा का समूचा भूमिगत क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी, पटरियों के बीच भूमिगत क्षेत्र तथा स्टेशन भवन, पटरी, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, स्टेशन भवन के दोनों पूर्व व पश्चिम की तरफ के प्रवेश/प्रस्थान द्वार शामिल है दिल्ली मैट्रो रेल निगम द्वारा भूतल पर आच्छादित क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ पार्किंग स्थल डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर सम्बन्ध/संलग्न भवन तथा पूर्वी और पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार शामिल है।
3	मैट्रो स्टेशन सिविल लाईन	मैट्रो भूमिगत स्टेशन सिविल लाईन्स जिसमें स्टेशन भवन, पटरी प्लेटफार्म, कोनकोर्स, स्टेशन भवन के दोनों छोरों के प्रवेश/प्रस्थान द्वार शामिल है दिल्ली मैट्रो रेल निगम द्वारा भूतल पर आच्छादित क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ पार्किंग स्थल डीएमआरसी की चारदीवारी / बाड़ के भीतर सम्बन्ध/संलग्न भवन तथा पूर्वी और पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार शामिल है।
4	मैट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट	मैट्रो भूमिगत स्टेशन कश्मीरी गेट (येलो लाईन) का समूचा क्षेत्र, जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, कश्मीरी गेट मैट्रो स्टेशन से लाल किला मैट्रो स्टेशन (शामिल नहीं) तक की पटरी, तथा कश्मीरी गेट मैट्रो से तीस हजारी मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें तीस हजारी मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है, कश्मीरी गेट रिसीविंग सब स्टेशन प्लेटफार्म चारदीवारी व पटरी के बीच का क्षेत्र, प्रवेश/प्रस्थान तक का आन्तरिक पैदल पथ, मैट्रो

		भवन की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र जिसमें उत्तरी तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें सभी चार प्रवेश/निकास द्वार भूमिगत मेट्रो स्टेशन की भूमि से क्षेत्र शामिल है। श्यामनाथ मार्ग एवम् लाला हरदेव साहनी मार्ग क्रॉसिंग के पश्चिमी ओर स्थित भवन व चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र तथा मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट (रेड लाईन) का क्षेत्र, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा भूतल पर आच्छादित क्षेत्र, जिसमें उत्तर की ओर चारदीवारी/बाड़ पार्किंग क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ पार्किंग स्थल व चारदीवारी के बाहर के पैदल पथ को छोड़कर, डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
5	मैट्रो स्टेशन चाँदनी चौक	मैट्रो भूमिगत स्टेशन चाँदनी चौक (दिल्ली मैन) का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी, पटरियों के बीच का क्षेत्र तथा पटरी, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, कार्यालय परिसर, मैट्रो पार्किंग मैट्रो भवन, सहायक/सम्बद्ध भवन की चारदीवारी/बाड़ भूतल पर आच्छादित क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ के भीतर पार्किंग क्षेत्र शामिल है।
6	मैट्रो स्टेशन चावडी बाजार	मैट्रो भूमिगत स्टेशन चावडी बाजार का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी, पटरियों के बीच का क्षेत्र तथा पटरी, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, कार्यालय परिसर, मैट्रो पार्किंग मैट्रो भवन, सहायक/सम्बद्ध भवन तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर पार्किंग क्षेत्र शामिल है।
7	मैट्रो स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	मैट्रो भूमिगत स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का समूचा क्षेत्र, जिसमें चारदीवारी तथा पटरी, पटरियों के बीच का क्षेत्र, नई दिल्ली रिसीविंग सब-स्टेशन, प्लेटफार्म, कोनकोर्स, कार्यालय परिसर, मैट्रो पार्किंग मैट्रो भवन, सहायक/सम्बद्ध भवन तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा क्षेत्र।

6. मैट्रो पुलिस स्टेशन रिठाला

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मैट्रो स्टेशन रिठाला	मैट्रो स्टेशन रिठाला का समूचा क्षेत्र, जिसमें मैट्रो रेल की पटरी के पश्चिमी तरफ अन्त तक पटरी, पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन, आसपास क्षेत्र, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार दोनों तरफ अपने आन्तरिक भू-भाग, रिठाला रिसीविंग सब स्टेशन मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड जो मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग के नीचे से गुजरती है शामिल नहीं है।
2	मैट्रो स्टेशन रोहणी (पश्चिम)	मैट्रो स्टेशन रोहणी (पश्चिम) का समूचा क्षेत्र, जिसमें स्टेशन भवन पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के आसपास क्षेत्र, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार दोनों तरफ अपने आन्तरिक भू-भाग, डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं कमर्शियल काम्प्लेक्स, यूनिटि मॉल, सिनेपॉलिस सिनेमा हाल, चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड जो मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग के नीचे से गुजरती है शामिल नहीं है।
3	मैट्रो स्टेशन रोहणी (पूर्व)	मैट्रो स्टेशन रोहणी (पूर्व) का समूचा क्षेत्र, जिसमें स्टेशन भवन पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के आसपास क्षेत्र, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार दोनों तरफ अपने आन्तरिक भू-भाग, डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र जो चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड जो मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग के नीचे से गुजरती है शामिल नहीं है।
4	मैट्रो स्टेशन पीतम पुरा	मैट्रो स्टेशन पीतम पुरा का समूचा क्षेत्र, जिसमें स्टेशन भवन पटरी, प्लेटफार्म, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार दोनों तरफ अपने आन्तरिक भू-भाग, डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र जो चारदीवारी/बाड़ से घिरा है तथा डीएमआरसी की दीवार/बाड़ से घिरा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड जो मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग के नीचे से गुजरती है शामिल नहीं है।

5	मैट्रो स्टेशन कोहाट इन्क्लेव	मैट्रो स्टेशन आदर्श नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें स्टेशन भवन पटरी, प्लेटफार्म, स्टेशन भवन के आसपास क्षेत्र, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार दोनों तरफ अपने आन्तरिक भू-भाग, डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र जो चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़ जो मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग के नीचे से गुजरती है शामिल नहीं है।
---	------------------------------	---

7. मेट्रो पुलिस स्टेशन ओखला विहार

[illegible]

[illegible]

8. मैट्रो पुलिस स्टेशन शास्त्री पार्क

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मैट्रो स्टेशन शास्त्री पार्क	मैट्रो स्टेशन शास्त्री पार्क का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, शास्त्री पार्क मैट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट, मैट्रो स्टेशन तक की पटरी शामिल नहीं है तथा पटरियों के बीच का क्षेत्र, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ, आईटी पार्क क्षेत्र जिसमें मैट्रो संपत्ति के सामने सर्विस लेन शामिल है (आईटीपार्क से मैट्रो डिपो), डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ का भीतर सहायक/सम्बद्ध भवन।

[illegible]

[illegible]

5	मैट्रो स्टेशन मूलचन्द	मैट्रो स्टेशन मूलचन्द का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, डी एम आर सी द्वारा अनुरक्षित/स्वामित्व/नियंत्रणाधीन तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन शामिल है।
6	मैट्रो स्टेशन कैलाश कालोनी	मैट्रो स्टेशन कैलाश कालोनी का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, डी एम आर सी द्वारा अनुरक्षित/स्वामित्व/नियंत्रणाधीन तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन शामिल है।
7	मैट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस	मैट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, नेहरू प्लेस मैट्रो स्टेशन से कालका जी मंदिर मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें कालका जी मंदिर मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय, पार्किंग क्षेत्र अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, डी एम आर सी द्वारा अनुरक्षित/स्वामित्व/नियंत्रणाधीन तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन शामिल है।
8	मैट्रो स्टेशन साऊथ एक्सटेंशन	मैट्रो स्टेशन साऊथ एक्सटेंशन का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, आन्तरिक भूमिगत, मैट्रो भवन के प्रवेश/निकास द्वार, डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ से घिरा भू-क्षेत्र जिसमें फुटपाथ सर्विस रोड, मेन रोड शामिल नहीं हैं

11. मैट्रो पुलिस स्टेशन आई.एन.ए

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मैट्रो स्टेशन जोर बाग	मैट्रो स्टेशन जोर बाग का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, जोर बाग मैट्रो स्टेशन से लोक कल्याण मार्ग मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें लोक कल्याण मार्ग मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र शामिल है। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क जो मैट्रो स्टेशन के ऊपर से जा रही है शामिल नहीं है।
2	मैट्रो स्टेशन आई.एन.ए	मैट्रो स्टेशन आई.एन.ए (दोनों लाईन)का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, आई एन ए रिसीविंग सब स्टेशन, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, शामिल है। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क जो मैट्रो स्टेशन के ऊपर से जा रही है शामिल नहीं है।
3	मैट्रो स्टेशन अ.भा.आ.वि	मैट्रो स्टेशन अ.भा.आ.वि. का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, शामिल है। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क जो मैट्रो स्टेशन के ऊपर से जा रही है शामिल नहीं है।
4	मैट्रो स्टेशन ग्रीन पार्क	मैट्रो स्टेशन ग्रीन पार्क का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, ग्रीन पार्क मैट्रो स्टेशन से हौज खास मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें हौज खास मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, शामिल है। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड, मुख्य सड़क जो मैट्रो स्टेशन के ऊपर से जा रही है शामिल नहीं है।
5	मैट्रो स्टेशन भीकाजी कामा प्लेस	मैट्रो स्टेशन भीकाजी कामा प्लेस का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय, पार्किंग क्षेत्र अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र,

6	मैट्रो स्टेशन मोती बाग	मैट्रो स्टेशन मोती बाग का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, मोती बाग मैट्रो स्टेशन से साऊथ कैंपस मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें साऊथ कैंपस मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय, पार्किंग क्षेत्र अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र।
7	मैट्रो स्टेशन सरोजिनी नगर	मैट्रो स्टेशन सरोजिनी नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय, स्टेशन भवन के प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मेन रोड़ शामिल नहीं है।

12. मैट्रो पुलिस स्टेशन जनक पुरी

[illegible]

		है, द्वारका रिसीविंग सब स्टेशन, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
9	मैट्रो स्टेशन नंगली	मैट्रो स्टेशन नंगली का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
10	मैट्रो डिपो नजफगढ़	मैट्रो डिपो नजफगढ़ डी एम आर सी मैट्रो यार्ड तथा नजफगढ़ डिपो जिसमें डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ से घिरा क्षेत्र शामिल है कार्यलय परिसर मैट्रो स्टेशन द्वारका से आने वाला मैट्रो पटरी नजफगढ़ रोड़ के दक्षिण की तरफ डीएमआरसी द्वारा चारदीवारी/बाड़ के भीतर जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
11	मैट्रो स्टेशन डाबड़ी मोड़	मैट्रो स्टेशन डाबड़ी मोड़ का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
12	मैट्रो स्टेशन दशरथ पुरी	मैट्रो स्टेशन दशरथ पुरी का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
13	मैट्रो स्टेशन पालम	मैट्रो स्टेशन पालम का समूचा भूमिगत क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, पालम रिसीविंग सब स्टेशन, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
14	मैट्रो स्टेशन सदर बाजार कैन्ट	मैट्रो स्टेशन सदर बाजार कैन्ट का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
15	मैट्रो स्टेशन आई जी आई एयरपोर्ट टर्मिनल - I	मैट्रो स्टेशन आई जी आई एयरपोर्ट टर्मिनल - I का समूचा भूमिगत क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मेट्रो परिसर तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र अपने आन्तरिक भू-भाग मेट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।

13. मैट्रो पुलिस स्टेशन प्रगति मैदान

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मैट्रो स्टेशन बाराखम्बा रोड़	मैट्रो स्टेशन भूमिगत बाराखम्बा रोड़ का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, बाराखम्बा रोड़ मैट्रो स्टेशन से राजीव चौक मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें राजीव चौक मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर जो कानकोर्स व प्लेटफोम की ओर जाती है। इसमें फूटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।

2	मैट्रो स्टेशन मण्डी हाउस	मैट्रो स्टेशन भूमिगत मण्डी हाउस का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर जो कानकोर्स व प्लेट फोर्म की ओर जाती है। इसमें फूटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।
3	मैट्रो स्टेशन प्रगति मैदान	मैट्रो स्टेशन प्रगति मैदान का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर जो कानकोर्स व प्लेट फोर्म की ओर जाती है। मैट्रो स्टेशन प्रगति मैदान के चारदीवारी के भीतर का समूचा क्षेत्र, कार्यालय, पार्किंग क्षेत्र शामिल है, इसमें फूटपाथ, घूमने वाली खुली जगह, सभी सर्विस रोड़, जो गेट न० 10 प्रगति मैदान की ओर जाती है शामिल नहीं है।
4	मैट्रो स्टेशन इन्द्रप्रस्थ	मैट्रो स्टेशन इन्द्रप्रस्थ का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, इंदरप्रस्थ मैट्रो स्टेशन से यमुना बैंक मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें यमुना बैंक मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है, इंदरप्रस्थ रिसीविंग सब स्टेशन, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है जिसमें फुट ओवर ब्रिज शामिल नहीं है इसमें फूटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।
5	मैट्रो स्टेशन जनपथ	मैट्रो स्टेशन भूमिगत जनपथ का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, जनपथ मैट्रो स्टेशन से केंद्रीय सचिवालय मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें केंद्रीय सचिवालय मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर जो कानकोर्स व प्लेटफार्म की ओर जाती है। इसमें फूटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।
6	मैट्रो स्टेशन आई.टी.ओ	मैट्रो भूमिगत स्टेशन आई.टी.ओ का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर जो कानकोर्स व प्लेट फोर्म की ओर जाती है। इसमें फूटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।
7	मैट्रो स्टेशन दिल्ली गेट	मैट्रो भूमिगत स्टेशन दिल्ली गेट का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर जो कानकोर्स व प्लेट फोर्म की ओर जाती है। इसमें फूटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।
8	मैट्रो स्टेशन जामा मस्जिद	मैट्रो भूमिगत स्टेशन जामा मस्जिद का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर जो कानकोर्स व प्लेट फोर्म की ओर जाती है। इसमें फूटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।
9	मैट्रो स्टेशन लाल किला	मैट्रो भूमिगत स्टेशन लाल किला का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ सीढ़ियां, लिफ्ट, एस्केलेटर जो कानकोर्स व प्लेट फोर्म की ओर जाती है। इसमें फूटपाथ, सर्विस रोड़, मुख्य मार्ग शामिल नहीं है।

14. मैट्रो पुलिस स्टेशन राजीव चौक

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मैट्रो स्टेशन राजीव चौक	मैट्रो भूमिगत स्टेशन राजीव चौक का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, राजीव चौक मैट्रो स्टेशन से आर० क० आश्रम मार्ग मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें आर के आश्रम मार्ग मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है व राजीव चौक मैट्रो स्टेशन से नई दिल्ली तक की पटरी जिसमें नई दिल्ली मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन जिसमें का क्षेत्र शामिल है।

2	मैट्रो स्टेशन पटेल चौक	मैट्रो भूमिगत स्टेशन पटेल चौक का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र तथा डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर प्लॉट नं०-8 जन्तर मन्तर का क्षेत्र।
3	मैट्रो स्टेशन केन्द्रीय सचिवालय	मैट्रो भूमिगत स्टेशन केन्द्रीय सचिवालय का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर का क्षेत्र तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन का क्षेत्र शामिल है।
4	मैट्रो स्टेशन उद्योग भवन	मैट्रो स्टेशन उद्योग भवन का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर का क्षेत्र तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन का क्षेत्र शामिल है।
5	मैट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग	मैट्रो भूमिगत स्टेशन स्टेशन लोक कल्याण मार्ग का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर का क्षेत्र तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन का क्षेत्र शामिल है।

15. मैट्रो पुलिस स्टेशन आजादपुर

क्र. सं.	मैट्रो स्टेशन का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1	मैट्रो स्टेशन जी.टी.बी नगर	भूमिगत मैट्रो स्टेशन जी.टी.बी नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें स्टेशन भवन, पटरी, जी टी बी नगर मैट्रो स्टेशन से विश्वविद्यालय मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें विश्वविद्यालय मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है प्लेटफार्म रिंग रोड पर स्टेशन भवन के दोनों छोरों के प्रवेश/प्रस्थान द्वार शामिल है दिल्ली मैट्रो रेल निगम द्वारा भूतल पर आच्छादित क्षेत्र जिसमें चारदीवारी/बाड़ जो उत्तर दिशा की ओर रिंग रोड के समानान्तर पार्किंग स्थल शामिल है।
2	मैट्रो स्टेशन माडल टाऊन	मैट्रो स्टेशन माडल टाऊन का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर उत्तरी ओर अल्पना सिनेमा मॉडल टाउन -I व दक्षिण ओर थाना मॉडल टाउन के बीच का क्षेत्र शामिल है। इसमें चारदीवारी के बाहर पैदल पथ शामिल नहीं है।
3	मैट्रो रेल यार्ड/डिपो तिमार पुर (खैबर पास)	मैट्रो यार्ड/डिपो तिमार पुर, जिसमें पटरी, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो का कार्यालय अपने आन्तरिक भूमिगत मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ भूमिगत मैट्रो ट्रेक मुख्य ट्रेक तक जो कि विश्वविद्यालय मैट्रो स्टेशन की ओर से आता है डीएमआरसी की चारदीवारी का भीतरी क्षेत्र, डी एम आर सी द्वारा अनुरक्षित/स्वामित्व/नियंत्रणाधीन पार्किंग क्षेत्र डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र तथा सम्बन्ध/संलग्न भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
4	मैट्रो स्टेशन आजाद पुर	मैट्रो स्टेशन आजाद पुर का समूचा क्षेत्र, (दोनों लाईन) जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, रिंग रोड व प्रमेशवरी वाला बाग के बीच का पार्किंग क्षेत्र व उत्तरी और के रिंग रोड एवम् दक्षिण और लाल बाग के सामनान्तर, एवं चारदीवारी के बाहर के पैदल पथ को छोड़कर शामिल है।
5	मैट्रो स्टेशन शालीमार बाग	मैट्रो स्टेशन शालीमार बाग का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, मैट्रो यार्ड, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
6	मैट्रो स्टेशन मजलिस पार्क	मैट्रो स्टेशन मजलिस पार्क का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार स्टेशन के दोनों तरफ अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। जिसमें फुटपाथ, सर्विस रोड और मैट्रो स्टेशन भवन के नीचे आने वाली सड़क शामिल नहीं है।

4	मैट्रो स्टेशन इन्द्रलोक	मैट्रो स्टेशन इन्द्रलोक का समूचा क्षेत्र, जिसमें दोनो लाईन शामिल हैं, पटरी, इंदरलोक मैट्रो स्टेशन से अशोका पार्क मैन मैट्रो स्टेशन तक की पटरी, जिसमें अशोका पार्क मैन मैट्रो स्टेशन शामिल नहीं है प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें फुटपाथ, सर्विस रोड़, मैन रोड़, जो मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग के नीचे से गुजरती है शामिल नहीं है।
5	मैट्रो स्टेशन शास्त्री नगर	मैट्रो स्टेशन शास्त्री नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, प्रवेश/प्रस्थान द्वार एवं चारदीवारी के भीतर शापिंग/संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें रोड़/सर्विस रोड़ जो मैट्रो स्टेशन के नीचे से गुजरती है शामिल नहीं है।
6	मैट्रो स्टेशन प्रताप नगर	मैट्रो स्टेशन प्रताप नगर का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, प्रवेश/प्रस्थान द्वार एवं चारदीवारी के भीतर शापिंग/संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें मैट्रो प्रताप नगर के नीचे रोड़ न. 40 (नजदीक अन्धा मुगल) शामिल नहीं है।
7	मैट्रो स्टेशन पुल बंगश	मैट्रो स्टेशन पुल बंगश का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर संबद्ध भवन, प्रवेश/प्रस्थान द्वार तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है। इसमें दक्षिण व पूर्व की तरफ जाने वाला पैदल पथ जो रोशनारा रोड़ के समानान्तर है शामिल नहीं है।
8	मैट्रो स्टेशन तीस हजारी	मैट्रो स्टेशन तीस हजारी का समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर, जिसमें मैट्रो स्टेशन के पीछे चारदीवारी/बाड़ पार्किंग क्षेत्र, रोड़ के समानान्तर पूर्वी ओर दक्षिण ओर पैदल पथ को छोड़कर, तीस हजारी मैट्रो स्टेशन के प्रथम तल से तीस हजारी कोर्ट की तरफ जाने वाले दोने रैंप, मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ। डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी के भीतर शापिंग/संबद्ध भवन तथा अन्य संपत्ति विकास क्षेत्र जो डीएमआरसी चारदीवारी/बाड़ से घिरा है।
9	मैट्रो स्टेशन शकूर पुर	मैट्रो स्टेशन शकूर पुर समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी/बाड़ के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र जो डीएमआरसी द्वारा समूचित विकास के लिये है, शामिल है।
10	मैट्रो स्टेशन पंजाबी बाग (वेस्ट)	मैट्रो स्टेशन पंजाबी बाग (वेस्ट) समूचा क्षेत्र, जिसमें पटरी, पंजाबी बाग वेस्ट मैट्रो स्टेशन से इ एस आई हॉस्पिटल मैट्रो स्टेशन तक की पटरी (के सिवा), प्लेटफार्म, सम्मिलित क्षेत्र, मैट्रो परिसर प्रवेश/प्रस्थान द्वार अपने आन्तरिक भू-भाग मैट्रो भवन की चारदीवारी के साथ डीएमआरसी की चारदीवारी के भीतर का क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र एवं चारदीवारी/बाड़ के भीतर समूचित विकास के लिये संलग्न क्षेत्र शामिल है।

स्थानीय पुलिस का सभी सड़कों/सर्विस रोड़ के ऊपर मैट्रो पटरी के ऊपर/नीचे गुजर रहे/रही फुटपाथ जलधाराएं, नाले बहते पानी के ऊपर तथा पटरी के ऊपर/नीचे और मैट्रो पटरी को उठा रहे स्तम्भों के बीच पड़ने वाले खुले स्थानों पर क्षेत्राधिकार रहेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

पवन कुमार, उप सचिव गृह

HOME POLICE (I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2018

F.No. 1/7/2016/HP-I/Estt./4903 to 4910.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) read with the clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, and in suppression of the Government of National Capital Territory of Delhi's notification number F. No. 1/07/2016/HP-1/Estt./302-309 dated the 19th April, 2017 except as respect things done or omitted to be done before such suppression, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare:—

- (a) That the area of new Metro Station namely ESI Hospital shall be included in the jurisdiction of Police Station Raja Garden Metro from the date of issue of this notification;
- (b) That area of new Metro Stations namely IIT, R.K. Puram, Munirka, Vasant Vihar and Shankar Vihar shall be included in the jurisdiction of Police Station Ghitorni Metro from the date of issue of this notification;
- (c) That area of new Metro Stations namely Nehru Enclave, Greater Kailash, Chirag Delhi Panchsheel Park, and Kalindi Kunj shall be included in the jurisdiction of Police Station Okhla Vihar Metro from the date of issue of this notification;
- (d) That area of new Metro Stations namely Mundka Industrial Area (MIA), Ghevra, Tikri Kalan and Tikri Border shall be included in the jurisdiction of Police Station Nangloi Metro from the date of issue of this notification ;
- (e) That area of new Metro Stations namely Dabri Mor, Dhashrath Puri, Palam and IGI Airport Terminal-1 shall be included in the jurisdiction of Police Station Janakpuri Metro from the date of issue of this notification;
- (f) That area of new Metro Stations namely Shalimar Bagh shall be included in the jurisdiction of Police Station Azadpur Metro from the date of issue of this notification;
- (g) That area of new Metro Stations namely Shakur Pur and Punjabi Bagh (West) shall be included in the jurisdiction of Police Station Netaji Subhash Place Metro from the date of issue of this notification ;

- (h) That area of new Metro Stations namely Sarojini Nagar, shall be included in the jurisdiction of Police Station INA Metro from the date of issue of this notification ;
- (i) That area of new Metro Stations namely South Extension, shall be included in the jurisdiction of Police Station Nehru Place Metro from the date of issue of this notification;
- (j) The area of Kashmere Gate Receiving Sub-Station and New Delhi Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Kashmere Gate Metro from the date of issue of this notification;
- (k) The area of Rithala Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Rithala Metro from the date of issue of this notification;
- (l) The area of Jahangir Puri Receiving Sub-Station and Mukundpur Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Azadpur Metro from the date of issue of this notification;
- (m) The area of Yamuna Vihar Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Shastri Park Metro from the date of issue of this notification;
- (n) The area of Indraprastha Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Pragati Maidan Metro from the date of issue of this notification;
- (o) The area of Vinod Nagar Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Yamuna Depot Metro from the date of issue of this notification;
- (p) The area of Dwarka Receiving Sub-Station and Palam Receiving Sub-Station are included in the jurisdiction of Police Station Janakpuri Metro from the date of issue of this notification;
- (q) The area of Subhash Nagar Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Raja Garden Metro from the date of issue of this notification;
- (r) The area of Mundka Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Nangloi Metro from the date of issue of this notification;
- (s) The area of Chattarpur Receiving Sub-Station and RK Puram Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station Ghitorni Metro from the date of issue of this notification;
- (t) The area of Sarita Vihar Receiving Sub-Station and Kalkaji Receiving Sub-Station included in the jurisdiction of Police Station Okhla Vihar from the date of issue of this notification;

- (u) The area of Airport Receiving Sub-Station and Dhaula Kuan Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station IGI Airport Metro from the date of issue of this notification and ;
- (v) The area of INA Receiving Sub-Station shall be included in the jurisdiction of Police Station INA Metro from the date of issue of this notification;

The boundaries/revised boundaries/jurisdictions of all the Metro Police Stations shall cover the local area henceforth as specified in the following Schedule, namely:—

SCHEDULE

Jurisdiction of 16 Metro Police Stations

1. Metro Police Station IGI Airport

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station New Delhi Metro Express	Total area of Metro Station New Delhi Express including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area under ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
2	Metro Station Shivaji Stadium	Total area of Metro Station Shivaji Stadium including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area under ground and inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
3	Metro Station Dhaula Kuan	Total area of Metro Station Dhaula Kuan including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings and Dhaula Kuan Receiving Sub Station . The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
4	Metro Station Aero City NH-8 (Mahipalpur)	Total area of Metro Station Aero City NH-8 (Mahipalpur) including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied building and ramp of Metro rail on the road including stairs (excluding pavement) and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
5	Metro Station IGI	Total area of Metro Station IGI Airport including track, platforms,

	Airport	concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied building, Airport Receiving Sub Station and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
6	Metro Station Dwarka Sector-21	Total area of Metro Station Dwarka Sector-21 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC .
7	Metro Depot Dwarka Sector-21	The Depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro track, Metro Yard, office premises, property development areas inside the boundary wall.
8	Metro Station Dwarka Sector-08	Total area of Metro Station Dwarka Sector-08 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
9	Metro Station Dwarka Sector-09	Total area of Metro Station Dwarka Sector-09 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
10	Metro Station Dwarka Sector-10	Total area of Metro Station Dwarka Sector-10 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
11	Metro Station Dwarka Sector-11	Total area of Metro Station Dwarka Sector-11 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
12	Metro Station Dwarka Sector-12	Total area of Metro Station Dwarka Sector-12 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC. Parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
13	Metro Station Dwarka Sector-13	Total area of Metro Station Dwarka Sector-13 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under

		the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the Metro tracks.
14	Metro Station Dwarka Sector-14	Total area of Metro Station Dwarka Sector-14 including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC. Proposed building of police post Dwarka Metro, electric substation in between Metro Station Dwarka and Dwarka Sector-14 in front of police post Dwarka Metro excluding the area under the Metro tracks.
15	Metro Station South Campus	Total area of Metro Station South Campus including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, Parking area owned / maintained / under the control of DMRC, ancillary / allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding the area under the Metro Tracks.
16	Metro Station Delhi Cantonment	Total area of Metro Station Delhi Cantonment including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, Parking area owned / maintained / under the control of DMRC, ancillary / allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding the area under the Metro Tracks.
17	Metro Station Naraina Vihar	Total area of Metro Station Naraina Vihar including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, Parking area owned / maintained / under the control of DMRC, ancillary / allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding the area under the Metro Tracks.
18	Metro Station Mayapuri	Total area of Metro Station Mayapuri including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary / allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding the area under the metro Tracks.

2. Metro Police Station Raja Garden

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Ramakrishna Ashram Marg	Total area of Metro Station Ramakrishna Ashram Marg including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, Concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro buildings except Punch Kuiyan road under Metro station. The area of parking and ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing of DMRC.
2	Metro Station Jhandewalan	Total area of Metro Station Jhandewalan including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, Concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of Metro building except Link Road under the Metro Station. The area of parking and ancillary/allied buildings inside the boundary wall / fencing of DMRC.
3	Metro Station Karol Bagh	Total area of Metro Station Karol Bagh including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall / fencing of Metro buildings, ancillary / allied buildings except Pusa Road under the Metro Station building. Parking area inside boundary wall / fencing of DMRC and other property development area of DMRC.
4	Metro Station Rajendra Place	Total area of metro Station Rajendra place including track, platforms, concourse office complex of metro with area inside the boundary wall of Metro building ancillary / allied buildings except Pusa Road under the Metro Station. Parking area inside boundary wall / fencing of DMRC and other property development area of DMRC.
5	Metro Station Patel Nagar	Total area of Metro Station Patel Nagar including track, platforms, Concourse, office complex of metro with area inside the boundary wall of Metro building. Property development area and parking area inside the boundary wall DMRC except main road Patel Nagar under the Metro Station. The area inside the boundary wall / fencing of DMRC parking and ancillary / allied buildings.
6	Metro Station Shadipur	Total area of Metro Station Shadipur including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of metro building except main Patel Nagar Road under the Metro Station. The area inside the boundary wall/fencing of DMRC, parking ancillary / allied building and other property development area of DMRC.
7	Metro Station Kirti Nagar	Total area of Metro Station Kirti Nagar including track, platforms, Concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of metro building. The area inside the boundary wall/ fencing of DMRC, parking, ancillary / allied buildings and other property development area of DMRC.
8	Metro Station Moti Nagar	Total area of Metro Station Moti Nagar including track, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of metro buildings except main Najafgarh Road under the Metro Station. The area inside the boundary wall /

		fencing of DMRC, parking, ancillary / allied building and other property development area of DMRC.
9	Metro Station Ramesh Nagar	Total area of Metro Station Ramesh Nagar including track, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings except main Najafgarh Road under the Metro Station. The area inside the boundary wall / fencing of DMRC, Parking, ancillary / allied buildings and other property development area of DMRC.
10	Metro Station Rajouri Garden	Total area of Metro Station Rajouri Garden (both Lines), track from Rajouri Garden Metro Station upto Mayapuri Metro Station (excluding) , platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings except main Najafgarh Road under the Metro Station. The area inside the boundary wall/fencing of DMRC, multi level parking with commercial complex, ancillary /allied buildings and other property development area of DMRC.
11	Metro Station Tagore Garden	Total area of Metro Station Tagore Garden including track, platforms, Concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings except main Najafgarh Road under the Metro station. The area inside the boundary wall/fencing of DMRC, Parking, ancillary/allied building other property development area of DMRC.
12	Metro Station Subhash Nagar	Total, area of Metro Station Subhash Nagar including track, track from Subhash Nagar Metro Station upto Tilak Nagar Metro Station (excluding) , Subhash Nagar Receiving Sub Station, platforms, Concourse, office complex of Metro with commercial development area on ground inside the boundary wall of Metro buildings except main Najafgarh road under the Metro Station. The area inside the boundary wall/fencing of DMRC, parking, ancillary / allied buildings and other property development area of DMRC.
13	Metro Station Sat Guru Ram Singh Marg	Total area of Metro Station Sat Guru Ram Singh Marg including station building, track, track from Sat Guru Ram Singh Marg Metro Station upto Ashoka Park Main Metro Station (excluding) , Platform, entry/exit gate of both side of station building, ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing, excluding footpath, service road, main road laying under the Metro Station building.
14	Metro Station ESI Hospital	Total area of Metro Station ESI Hospital including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area owned/maintained/under the control of DMRC, ancillary/allied buildings and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding the area under the metro Tracks.

2. Metro Police Station Yamuna Depot

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Yamuna Bank	Total area of Metro Station Yamuna Bank, including track, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground and underground inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied buildings and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
2	Metro Depot Yamuna Bank	The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro Track metro Yard office premises property development areas inside the boundary wall along with track coming from Yamuna Bank Metro Station excluding footpath, service road, main road.
3	Metro Station Laxmi Nagar	Total area of Metro Station Laxmi Nagar, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building, and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding ramp/foot over bridge on the road, footpath, service road, main road..
4	Metro Station Nirman Vihar	Total area of Metro Station Nirman Vihar, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding ramp/foot over bridge on the road, footpath, service road, main road.
5	Metro Station Preet Vihar	Total area of Metro Station Preet Vihar, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
6	Metro Station Karkardooma	Total area of Metro Station Karkardooma (both lines), including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
7	Metro Station Anand Vihar ISBT	Total area of Metro Station Anand Vihar ISBT (both lines), including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings excluding the foot over bridge connects to Anand Vihar Railway Station. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary

		wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
8	Metro Station Akshardham	Total area of Metro Station Akshardham, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area of ground inside the boundary wall of metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding foot over bridge, footpath, service road, main road..
9	Metro Station Mayur Vihar Phase-1	Total area of Metro Station Mayur Vihar Phase-1 (both lines), tracks from Mayur Vihar Phase-1 Metro Station upto Hazrat Nizamuddin Metro Stations (excluding) platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
10	Metro Station Mayur Vihar Extension	Total area of Metro Station Mayur Vihar Extension, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, parking area, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.
11	Metro Station New Ashok Nagar	Total area of Metro Station New Ashok Nagar, including track, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground and inside the boundary wall of Metro buildings. The area inside the boundary wall of DMRC, allied building and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road.

4. Metro Police Station Ghitorni

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Hauz Khas	Total area of Metro Station Hauz Khas (both lines), track, platform, Circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
2	Metro Station Malviya Nagar	Total area of Metro Station Malviya Nagar, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing for parking lots/property development area, excluding footpath, service road, main road lying over the metro Station.
3	Metro Station Saket	Total area of Metro Station Saket, Track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, and parking lots, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.

4	Metro Station Qutab Minar	Total area of Metro Station Qutab Minar, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
5	Metro Station Chhatarpur	Total area of Metro Station Chhatarpur, track, platform, Chhatarpur Receiving Sub Station , circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
6	Metro Station Sultanpur	Total area of Metro Station Sultanpur, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
7	Metro Station Ghitorni	Total area of Metro Station Ghitorni, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
8	Metro Station Arjangarh	Total area of Metro Station Arjangarh, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
9	Metro Depot Sultanpur	The depot including area covered by boundary wall and fencing by DMRC including metro track, metro Yard, office premises property development areas inside the boundary wall.
10	Metro Station IIT	Total underground area of Metro Station IIT, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
11	Metro Station R.K. Puram	Total underground area of Metro Station R.K. Puram, track, platform, R.K. Puram Receiving Sub Station, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
12	Metro Station Munirka	Total underground area of Metro Station Munirka, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
13	Metro Station Vasant Vihar	Total underground area of Metro Station Vasant Vihar, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.
14	Metro Station Shankar Vihar	Total area of Metro Station Shankar Vihar, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing and parking lots, excluding footpath, service road, main road.

Metro Police Station Kashmere Gate

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Vishwavidayala	Total underground area of Metro Station Vishwavidayala, metro track, including area between boundary wall and track, coming from buffer zone at the end of the Metro Station Vishwavidayala, track including area between inside boundary wall, platforms, tracks and area between tracks, concourse, entry and exit gates stairs, lifts, escalators leading to concourse, platforms. Parking area inside the boundary wall of Metro Station Vishwavidayala and area on ground inside the building of metro on eastern and western entries and ancillary building, circulating area inside the boundary wall, property development area attached with metro rail station boundary by boundary wall / fencing.
2	Metro Station Vidhan Sabha	Total underground area of Metro Station Vidhan Sabha including underground area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of metro building for entries on eastern and western side, ancillary building and parking area inside the boundary wall and fencing by the DMRC.
3	Metro Station Civil Lines	Total underground area of Metro Station Civil Lines including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of metro which are on ground inside the boundary wall of metro building for entries on eastern and western side, ancillary building and parking area inside the boundary wall and fencing by the DMRC.
4	Metro Station Kashmere Gate	Total area of metro Station Kashmere Gate underground (Yellow Line) including area between boundary wall and track, tracks from Kashmere Gate Metro Station upto Lal Quila Metro Station(excluding) & from Kashmere Gate Metro Station upto Tis Hazari Metro Station (excluding), Kashmere Gate Receiving Sub Stations and area between tracks, platforms concourse, office complex and underground subway up to the entry/exit on ground. The area inside the boundary wall of Metro buildings including shopping complex on northern side covering all the four entries/exits from the ground to the underground metro Station. Area inside the boundary wall of ancillary building situated on the western side of the crossing of the Shyamnath Marg and Lal Hardev Sahai marg and entire area including parking area inside the boundary wall / fencing of DMRC. Area of Metro Station Kashmere gate ISBT (Red line) which including station building commercial complex on the northern side of building under the station and parking and circulation area adjoining and around the ISBT Station inside fencing excluding pavements of the outer side.
5	Metro station Chandni Chowk	Total underground area of Metro Station Chandni Chowk (Delhi Main) including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms concourse, office complex, parking of Metro with area on ground inside the boundary wall / fencing

		of Metro building, ancillary/ allied building.
6	Metro station Chawri Bazar	Total underground area of Metro Station Chawri Bazar, including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings, ancillary / allied buildings and parking area inside boundary wall / fencing by DMRC.
7	Metro Station New Delhi Railway Station	Total underground area of Metro Station New Delhi Railway Station, including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, New Delhi Receiving Sub Station , platforms, concourse, office complex of metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary / allied building inside the boundary wall of DMRC.

Metro Police Station Rithala

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Rithala	Total area of Metro Station Rithala including DMRC track up to end of Metro Rail track on western side, platform, station building, circulating area, entry/exit gate of both side of station building and Rithala Receiving Sub Station . On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall fencing, excluding footpath, service road lying under the Metro Station building.
2	Metro station Rohini (West)	Total area of Metro Station Rohini (West) including station building track, platform, entry / exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking cum commercial complex including unity mall, cine polis cinema hall with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro station building.
3	Metro Station Rohini (East)	Total area of Metro Station Rohini (East) including station building track, platform, entry / exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
4	Metro Station Pitampura	Total area of Metro Station Pitampura including Station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing and other property development area covered with wall/fencing by DMRC excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
5	Metro Station Kohat Enclave	Total area of Metro Station Kohat Enclave including Station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall / fencing excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.

7. Metro Police Station Okhla Vihar

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Kalkaji Mandir	Total area of Metro Station Kalkaji Mandir (both Lines), including area between boundary wall and track and area between tracks, platform, concourse, Kalkaji Receiving Sub Station , office complex of the Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall fencing by DMRC.
2	Metro Station Govind Puri	Total area of Metro Station Govind Puri including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of the Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall fencing by DMRC.
3	Metro Station Okhla	Total area of Metro Station Okhla including parking area and area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
4	Metro Station Jasola	Total area of Metro Station Jasola (Apollo) including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
5	Metro Station Sarita Vihar	Total area of Metro Station Sarita Vihar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, Sarita Vihar Receiving Sub Station , concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
6	Metro Station Mohan Estate	Total area of Metro Station Mohan Estate including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
7	Metro Station Tuglakabad	Total area of Metro Station Tuglakabad including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with property development area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
8	Metro Station Badarpur	Total area of Metro Station Badarpur including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
9	Sarita Vihar Depot	Total area of Depot Sarita Vihar, on ground area covered by DMRC with boundary wall / fencing, with track and exit and entry

		gates along with its building premises excluding footpath, service road, main road.
10	Metro Station Okhla Phase-III	Total area of Metro Station Okhla Phase-III including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
11	Metro Station Sukhdev Vihar	Total area of Metro Station Sukhdev Vihar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
12	Metro Station Jamia Milia Islamia	Total area of Metro Station Jamia Milia Islamia including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
13	Metro Station Okhla Vihar	Total area of Metro Station Okhla Vihar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
14	Metro Station Jasola Vihar Shaheen Bagh	Total area of Metro Station Jasola Vihar Shaheen Bagh including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
15	Kalindi Kunj Depot	Total area of Kalindi Kunj Depot including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, office complex of depot and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
16	Kalindi Kunj	Total area of Kalindi Kunj Metro Station including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC
17	Metro Station Nehru Enclave	Total underground area of Metro Station Nehru Enclave including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
18	Metro Station Greater Kailash	Total underground area of Metro Station Greater Kailash including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
19	Metro Station Chirag Delhi	Total underground area of Metro Station Chirag Delhi including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.

20	Metro Station Panchsheel Park	Total underground area of Metro Station Panchsheel Park including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, track between Metro Station Panchsheel Park and Hauz Khas Metro Stations (excluding) platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
----	----------------------------------	--

8. Metro Police Station Shastri Park

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Shastri Park	Total area of Metro Station Shastri Park including parking area between boundary wall and track, tracks from Shastri Park Metro Station upto Kashmere Gate Metro Station (excluding) and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of IT park including service lane in front of Metro property (IT park to Metro Depot), ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by DMRC.
2	Metro Depot Shastri Park	The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro track, Metro Yard, office premises property development areas inside the boundary wall along with track coming from Shastri Park and Seelampur Metro Station.
3	Metro Station Seelampur	Total area of Metro Station Seelampur including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with station box and property development area inside the boundary wall of metro. The area of ancillary / allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
4	Metro Station Welcome	Total area of Metro Station Welcome including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with station box area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary / allied building inside the boundary wall / fencing by DMRC.
5	Metro Station Shahdara	The Railway track starting from iron gate of eastern side of the station where the Metro track starts, Station building, shopping complex Parsvnath mall under the station building on North-Eastern side, parking area inside the DMRC wall up to GT road excluding the road outside parking, leading to Anaj mandi road and western boundary wall of parking from GT road up to subway excluding the road and pavement.
6	Metro Station Mansarovar Park	Total area of Metro Station Mansarovar Park including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking and ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by the DMRC parallel to GT Road fly over on northern side and New Friends Colony Industrial area on southern side excluding the pavement outside the boundary wall / fencing.

7	Metro Station Jhilmil	Total area of Metro Station Jhilmil including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking and ancillary / allied buildings inside the boundary wall / fencing by the DMRC parallel to GT Road on northern side and B-Block Jhilmil industrial area on southern side excluding the pavement outside the boundary wall / fencing.
8	Metro Station Dilshad Garden	Total area of Metro Station Dilshad Garden including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of Parking and ancillary / allied building inside the boundary wall / fencing by the DMRC parallel to GT Road on northern side and A-block Jhilmil industrial area on southern side excluding the pavement outside the boundary wall on the eastern side of the station will be the limit of the area under the jurisdiction of Metro Police Station.
9	Metro Station Jafrabad	Total area of Metro Station Jafrabad including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
10	Metro Station Maujpur	Total area of Metro Station Maujpur including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
11	Metro Station Gokul Puri	Total area of Metro Station Gokul Puri including area between boundary wall and track, Yamuna Vihar Receiving Sub Station and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
12	Metro Station East Azad Nagar	Total area of Metro Station East Azad Nagar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
13	Metro Station Krishna Nagar	Total area of Metro Station Krishna Nagar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.
14	Metro Station Karkardooma Court	Total area of Metro Station Karkardooma Court including area between boundary wall and track, tracks from Karkardooma Court Metro Station upto I.P. Extension Metro Station (excluding) and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall / fencing by DMRC.

9. Metro Police Station Nangloi

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Ashoka Park Main	Total area of Metro Station Ashoka Park Main (both lines), including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
2	Metro Station Punjabi Bagh	Total area of Metro Station Punjabi Bagh including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
3	Metro Station Shivaji Park	Total area of Metro Station Shivaji Park including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
4	Metro Station Madipur	Total area of Metro Station Madipur including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
5	Metro Station Paschim Vihar (East)	Total area of Metro Station Paschim Vihar (East) including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
6	Metro Station Paschim Vihar (West)	Total area of Metro Station Paschim Vihar (West) including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
7	Metro Station Peeragarhi	Total area of Metro Station Peeragarhi including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
8	Metro Station Udhyog Nagar	Total area of Metro Station Udhyog Nagar including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
9	Metro Station Suraj Mal Stadium	Total area of Metro Station Suraj Mal Stadium including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
10	Metro Station Nangloi	Total area of Metro Station Nangloi including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground

		area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
11	Metro Station Nangloi Railway Station	Total area of Metro Station Nangloi Railway Station including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
12	Metro Station Rajdhani Park	Total area of Metro Station Rajdhani Park including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
13	Metro Station Mundka	Total area of Metro Station Mundka including station building, platform, Mundka Receiving Sub Station , entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
14	Metro Depot Mundka	The depot including area covered by the boundary wall and fencing by DMRC including Metro track, Metro yard, office premises, property development area inside the boundary wall along with track coming from Mundka Metro Station.
15	Metro Station Mundka Industrial Area (MIA)	Total area of Metro Station Mundka Industrial Area (MIA) including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
16	Metro Station Ghevra	Total area of Metro Station Ghevra including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
17	Metro Station Tikri Kalan	Total area of Metro Station Tikri Kalan including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
18	Metro Station Tikri Border	Total area of Metro Station Tikri Border including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.

10. Metro Police Station Nehru Place

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Khan Market	Total area of Metro Station Khan Market including station building, track from Khan Market Metro Station upto Central Secretariat Metro Station (excluding) , platform, entry/exit gates of the both side of station building on ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the metro station building.
2	Metro Station Jawaharlal Nehru Stadium	Total area of Metro Station Jawaharlal Nehru Stadium including station building, track, platform, entry/exit gates of the both side of station building on ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the metro station building.
3	Metro Station Jang Pura	Total area Metro Station Jang Pura including station building, track, platform, entry/exit gates of the both side of station building on ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the metro station building.
4	Metro Station Lajpat Nagar	Total area of Metro Station Lajpat Nagar (both lines), including area between boundary wall and track, tracks from Lajpat Nagar Metro Station upto South Extension (excluding) and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
5	Metro Station Moolchand	Total area of Metro Station Moolchand including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
6	Metro Station Kailash Colony	Total area of Metro Station Kailash Colony including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
7	Metro Station Nehru Place	Total area of Metro Station Nehru Place including parking area and area between boundary wall and track, tracks from Nehru Place Metro Station upto Kalkaji Mandir Metro Station (excluding) and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
8	Metro Station South Extension	Total area of Metro Station South Extension including station building, track, platform, entry/exit gates of station building, ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road.

11. Metro Police Station INA

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Jor Bagh	Total area of Metro Station Jor Bagh, track from Jor Bagh Metro Station upto Lok Kalyan Marg Metro Station (excluding) , platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
2	Metro Station INA	Total area of Metro Station INA (both lines), track platform, INA Receiving Sub Station , circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
3	Metro Station AIIMS	Total area of Metro Station AIIMS, track, platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
4	Metro Station Green Park	Total area of Metro Station Green Park, track from Green Park Metro Station upto Hauz Khas Metro Station (excluding) , platform, circulating area entry and exit gates of station building. On ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying over the Metro Station.
5	Metro Station Bhikaji Cama Place	Total area of Metro Station Bhikaji Cama Place area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
6	Metro Station Moti Bagh	Total area of Metro Station Moti Bagh area between boundary wall and track, tracks including track from Moti Bagh Metro Station upto South Campus Metro Station (excluding) and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
7	Metro Station Sarojini Nagar	Total area of Metro Station Sarojini Nagar including station building, track, platform, entry/exit gates of station building, ground area covered by DMRC with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road.

12. Metro Police Station Janakpuri

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Tilak Nagar	Total area of Metro Station Tilak Nagar including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
2	Metro Station Janakpuri (East)	Total area of Metro Station Janakpuri (East) including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.

3	Metro Station Janakpuri (West)	Total area of Metro Station Janakpuri (West) including multilevel parking with commercial complex area between boundary wall and track, and area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
4	Metro Station Uttam Nagar (East)	Total area of Metro Station Uttam Nagar (East) including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
5	Metro Station Uttam Nagar (West)	Total area of Metro Station Uttam Nagar (West) including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied building inside the boundary wall/fencing by DMRC.
6	Metro Station Nawada	Total area of Metro Station Nawada including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
7	Metro Station Dwarka Mor	Total area of Metro Station Dwarka Mor including parking area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
8	Metro Station Dwarka	Total area of Metro Station Dwarka including parking area between boundary wall and track, tracks from Dwarka Metro Station upto Dwarka Sector-14 Metro Station (excluding) and area between tracks, Dwarka Receiving Sub Station , platform, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by DMRC.
9	Metro Station Nangloi	Total area of Metro Station Nangloi including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
10	Metro Depot Najafgarh	The DMRC Metro yard and Depot Najafgarh including the area covered by the boundary walls and fencing by DMRC. Office premises, Metro track coming from Metro Station Dwarka, property development area of DMRC inside the boundary wall/fencing by DMRC on south side of Najafgarh road.
11	Metro Station Dabri Mor	Total area of Metro Station Dabri Mor including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
12	Metro Station Dashrath Puri	Total area of Metro Station Dashrath Puri including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.

13	Metro Station Palam	Total underground area of Metro Station Palam including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, Palam Receiving Sub Station, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
14	Metro Station Sadar Bazar Cantonment	Total area of Metro Station Sadar Bazar Cantonment including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
15	Metro Station IGI Airport Terminal-I	Total underground area of Metro Station IGI Airport Terminal-I including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.

13. Metro Police Station Pragati Maidan

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Barakhamba Road	Total underground area of Metro Station Barakhamba Road including metro track from Barakhamba Road Metro Station upto Rajiv Chowk Metro Station (excluding) platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road.
2	Metro Station Mandi House	Total underground area of Metro Station Mandi House (both blue and violet line), including metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road.
3	Metro Station Pragati Maidan	Total area of Metro Station Pragati Maidan, including metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms Area on ground inside the building of Metro Station, office complexes inside the building of metro station. The area of parking and ancillary/allied buildings, inside the boundary wall/fencing by DMRC excluding footpath, circulating areas and service roads leading to Gate No. 10 Pragati Maidan.
4	Metro Station Indraprastha	Total area of Metro Station Indraprastha including area between boundary wall and track, tracks from Indraprastha Metro Station upto Yamuna Bank Metro Station (excluding) and area between tracks, Indraprastha Receiving Sub Station , platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking and ancillary/allied buildings, inside the boundary wall/fencing by DMRC excluding foot over bridge, footpath, service road, main road.

5	Metro Station Janpath	Total underground area of Metro Station Janpath including area between boundary wall and track, tracks from Janpath Metro Station upto Central Secretariat Metro Station (excluding) and including metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road.
6	Metro Station ITO	Total underground area of Metro Station ITO including metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road.
7	Metro Station Delhi Gate	Total area of Metro Station Delhi Gate including metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road
8	Metro Station Jama Masjid	Total area of Metro Station Jama Masjid including metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road
9	Metro Station Lal Quila	Total area of Metro Station Lal Quila including metro track, platforms, concourse, entry and exit gates, stairs, lifts, escalators leading to the concourse and platforms, excluding footpath, service road, main road

14. Metro Police Station Rajiv Chowk

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Rajiv Chowk	Total underground area of Metro Station Rajiv Chowk including area between boundary wall and track, tracks from Rajiv Chowk Metro Station upto R.K. Ashram Marg Metro Station(excluding) & from Rajiv Chowk Metro Station upto New Delhi Metro Station (excluding) and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall of DMRC.
2	Metro Station Patel Chowk	Total underground area of Metro Station Patel Chowk, including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of parking and Plot No. 8 Jantar Mantar inside the boundary wall of DMRC.
3	Metro Station Central Secretariat	Total underground area of Metro Station Central Secretariat including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall of DMRC.

4	Metro Station Udhyog Bhawan	Total underground area of Metro Station Udhyog Bhawan including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall of DMRC.
5	Metro Station Lok Kalyan Marg (earlier Race Course)	Total underground area of Metro Station Lok Kalyan Marg including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall of DMRC.

15. Metro Police Station Azadpur

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station GTB Nagar	Total underground area of Metro Station GTB Nagar including underground area between boundary wall and track, tracks from GTB Nagar Metro Station upto Vishwavidyalaya Metro Station (excluding) and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area on ground inside the boundary wall of Metro buildings for entries on both side of Ring Road, ancillary building and area inside the boundary wall and fencing by the DMRC. The area of parking on northern side parallel to Ring Road.
2	Metro Station Model Town	Total area of Metro Station Model Town including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by the DMRC between the Alpana Cinemea Model Town-I, on northern side and Police Station Model Town on southern side excluding the pavement outside the boundary wall/fencing.
3	Metro Yard/Depot Timarpur (Khyber Pass)	The DMRC Metro Yard and Depot Timarpur including the area covered by the boundary wall and fencing by DMRC, office premises, underground Metro track up to the main Metro track coming from Metro Station Vishwavidhyalaya including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, property development area, parking area of DMRC inside the boundary wall and fencing by DMRC.
4	Metro Station Azadpur	Total area of Metro Station Azadpur (both lines), including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking between Ring Road and Parmeshwari Wala Bagh and ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by the DMRC parallel to Ring Road on northern side and Lal Bagh locality on southern side excluding the pavement outside the boundary wall/fencing.

5	Metro Station Shalimar Bagh	Total area of Metro Station Shalimar Bagh including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
6	Metro Station Majlis Park	Total area of Metro Station Majlis Park including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
7	Mukundpur Depot Station	Total area of Mukundpur Depot including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, Mukundpur Receiving Sub Station , platforms, office complex of Depot with area inside the boundary wall of Depot and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
8	Metro Station Adarsh Nagar	Total area of Metro Station Adarsh Nagar including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by the DMRC between the locality Adarsh Nagar on northern side and village Bhadola on southern side excluding the pavement outside the boundary wall/fencing.
9	Metro Station Jahangir Puri	Total area of Metro Station Jahangir Puri including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, Jahangir Puri Receiving Sub Station , office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. The area of parking on northern side parallel to GTK road and ancillary/allied buildings inside the boundary wall/fencing by the DMRC between the locality DDA flats Jahangir Puri on northern side and Rajasthani Udhyog Nagar on southern excluding the pavement outside the boundary wall/fencing.
10	Metro Station Haiderpur/Badli Mor	Total area of Metro Station Haiderpur including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
11	Metro Station Rohini Sector-18	Total area of Metro Station Rohini Sector-18 including area between boundary wall and track, tracks and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro with area inside the boundary wall of Metro. Parking area of DMRC and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.
12	Metro Station Samaypur Badli	Total area of Metro Station Samaypur Badli including area between boundary wall and track, and area between tracks, platforms, concourse, office complex of Metro and other property development area covered with boundary wall/fencing by DMRC.

16. Metro Police Station Netaji Subhash Place

S.No.	Name of Metro Station	Area
1	2	3
1	Metro Station Netaji Subhash Place	Total area of Metro Station Netaji Subhash Place (both lines) including station building, tracks from Netaji Subhash Place Metro Station upto Kohat Enclave Metro Station(excluding) & from Netaji Subhash Place Metro Station upto , Shalimar Bagh Metro Station, (excluding) , platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, area attached for proper development by DMRC.
2	Metro Station Keshav Puram	Total area of Metro Station Keshav Puram including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
3	Metro Station Kanhaiya Nagar	Total area of Metro Station Kanhaiya Nagar including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
4	Metro Station Inder Lok	Total area of Metro Station Inder Lok including station building of both line and track from Inder Lok Metro Station upto Ashoka Park Main Metro Station (excluding) platform and entry/exit gate of both line and its circulating area. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, excluding footpath, service road, main road lying under the Metro Station building.
5	Metro Station Shastri Nagar	The DMRC track coming from Metro Station Pratap Nagar, Metro Station Shastri Nagar, track, platforms, parking area, circulating area, property development area attached and under Metro rail Station bounded by boundary wall/fencing, entry and exit gate excluding the road/service road passing under the Metro Station.
6	Metro Station Pratap Nagar	Total area under the main Metro Station Pratap Nagar at ground floor, parking area, circulating area, property development area attached as under Metro Station Pratap Nagar bounded by the boundary wall/fencing, entry and exit gate of Metro Station Pratap Nagar excluding area of road number 40 (near Andha Mugal), beneath Metro Station Pratap Nagar.
7	Metro Station Pul Bangash	Total area of the main Metro Station Pul Bangash at ground floor, parking area, circulating area, property development area attached as under Metro Station Pul Bangash bounded by the boundary wall/fencing, entry and exit gate of Metro Station Pul Bangash excluding pavement on south and east side parallel to the Roshanara Road.
8	Metro Station Tis Hazari	Total area under the main Metro Station Tis Hazari at ground floor, parking area inside the boundary wall on north and east behind

		station building excluding pavement on eastern and southern side parallel to the road and the two ramps leading to Tis Hazari Court from first floor of Tis Hazari Metro Station will be under the jurisdiction of Metro Police Station.
9	Metro Station Shakur Pur	Total area of Metro Station Shakur Pur (both lines) including station building, track, platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, area attached for proper development by DMRC.
10	Metro Station Punjabi Bagh (West)	Total area of Metro Station Punjabi Bagh (West) (both lines) including station building, track, track from Punjabi Bagh West Metro Station upto ESI Hospital Metro Station (excluding) platform, entry/exit gate of both side of station building. On ground area covered by DMRC including parking lots with boundary wall/fencing, area attached for proper development by DMRC.

Local Police shall have the jurisdiction over all the road/service, road, footpath, streams, nala, flowing water, and over subway, passing over/under the Metro Track and all open space falling over/under the track and between the spans bearing the metro track where ever it exist.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy.(Home)